



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

3 मार्च 1935 (श0)

(सं0 पटना 104) पटना, बृहस्पतिवार, 23 जनवरी 2014

श्रम संसाधन विभाग

कार्यालय आदेश

13 जनवरी 2014

सं0 2/बी0एस0सी0ई01-1036/2012 श्र0सं0-03—केन्द्रीय अनुकम्पा समिति, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की दिनांक 28.11.2013 को सम्पन्न केन्द्रीय अनुकम्पा समिति की बैठक में तथा ज्ञापांक 18386 दिनांक 03.12.2013 द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर श्री संतोष कुमार, पुत्र—स्व0 रमेश राम, भूतपूर्व वियरर, बिहार सचिवालय भोजशाला, पटना को निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर पुनरीक्षित वेतनमान वेतन बैंड रु0 5200-20,200 एवं ग्रेड पे- 1900 में समय-समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत जीवन यापन भत्ता एवं अन्य भत्तों सहित पदभार ग्रहण करने की तिथि से नितान्त अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है तथा श्रमायुक्त, बिहार के कार्यालय अन्तर्गत लेखा शाखा में पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री संतोष कुमार की जन्म तिथि 10.10.1982 है।
3. यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है और इसे किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के नियमानुसार समाप्त किया जा सकता है।
4. श्री संतोष कुमार पर मृत सरकारी सेवक के आश्रितों के भरण-पोषण का उत्तरदायित्व होगी तथा इस उत्तरदायित्व की अवहेलना गंभीर कदाचार मानी जायेगी, जिसके लिए उन पर विभागीय कार्रवाई की जा सकेगी। यदि ये अपने दायित्व की अवहेलना करेंगे तो उसकी परिलब्धियों का नियमानुसार देय अंश मृत सरकारी सेवक के आश्रितों को भुगतने होगा।
5. श्री संतोष कुमार को योगदान के समय असैनिक शल्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र में प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र एवं दहेज लेन-देन संबंधी घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा।
6. नव पदस्थापित स्थान पर योगदान देने हेतु कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।
7. यह नियुक्ति श्री संतोष कुमार द्वारा समर्पित प्रमाण-पत्रों एवं चरित्र प्रमाण-पत्र को सही मानकर की जा रही है। भविष्य में कोई त्रुटि दृष्टिगोचर होने पर उनके विरुद्ध कानूनी/अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी एवं उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी और वेतनादि के मद में प्राप्त की गयी राशि की वसूली के साथ-साथ फौजदारी मुकदमा भी चलायी जा सकती है।
8. श्री संतोष कुमार को बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली-1976 के नियम-19 के प्रावधानों के तहत विहित प्रपत्र में चल-अचल सम्पत्ति का विवरण योगदान के समय प्रस्तुत करना होगा।

9. श्री संतोष कुमार को योगदान के समय नोटरी पब्लिक द्वारा निर्गत इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा कि वे किसी आपराधिक मामले में संलिप्त/नामित आरोपी नहीं हैं एवं किसी मामले में उन्हें न्यायालय से सजा नहीं मिली है।
10. श्री संतोष कुमार पर नई अंशदायी पेंशन योजना (वित्त विभाग का संकल्प संख्या 2469 दिनांक 17 नवम्बर, 2005) प्रभावी/लागू होगा।
11. श्री संतोष कुमार को नियुक्ति के छः माह के अन्दर कम्प्यूटर टंकण का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है।
12. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या 2082 दिनांक 01 अप्रैल, 2003 के प्रावधानों के तहत प्रशासनिक कार्यहित में राज्य स्तरीय राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ आदेश दिया जाता है।

आदेश से,
सुरेश कुमार सिन्हा,
श्रमायुक्त, बिहार।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 104-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>